

शोध प्रतिभागी का

अधिकार-पत्र

ये अधिकार हर उस व्यक्ति के अधिकार हैं जिस को चिकित्सा शोध अध्ययन में भाग लेने के लिए कहा जाता है। शोध प्रतिभागी के रूप में मेरे निम्नलिखित अधिकार हैं :

1. मुझे यह जानने का अधिकार है कि शोध में क्या पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
2. मुझे सभी शोध प्रक्रियाओं, दवाओं और/या साधनों के साथ यह भी जानने का अधिकार है कि इन में से कोई उस से अलग तो नहीं है जिस का उपयोग मानक कार्य में किया जाएगा।
3. मुझे ऐसे किसी जोखिम, बेचैनी या अनुषंगी प्रभावों के बारे में जानने का अधिकार है जो कि रूप से शोध के फलस्वरूप घटित हो सकते हों।
4. यह मेरा अधिकार है कि मुझे ऐसे किसी भी संभावित लाभ के बारे में बताया जाए जिनकी अपेक्षा मैं इस में भाग ले कर यथोचित रूप से कर सकता हूँ।
5. मुझे इस बारे में जानने का अधिकार है कि मेरे पास दूसरे विकल्प क्या हैं और ये कि वे शोध में भाग लेने की तुलना में कैसे बेहतर या बदतर हो सकते हैं। इन विकल्पों में दूसरी प्रक्रियाएं, दवाएं या साधन शामिल हो सकते हैं।
6. मुझे इस के बारे में जानने का अधिकार है कि शोध से अगर कोई परेशानी पैदा होती है तो किस प्रकार का उपचार उपलब्ध होगा ।
7. यह मेरा अधिकार है कि मुझे शोध या प्रक्रिया के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने का मौका मिले। मैं यह प्रश्न शोध शुरू होने से पहले या शोध के दौरान किसी भी समय पूछ सकता हूँ।
8. मुझे किसी भी समय शोध का हिस्सा होने से इनकार करने या उसे समाप्त करने का अधिकार है। यह निर्णय मेरी देखभाल या अपने डाक्टर अथवा इस संस्थान के साथ मेरे रिश्ते को किसी भी दूसरे रूप से प्रभावित नहीं करेगा।
9. मुझे यह अधिकार है कि मैं शोध के लिए हस्ताक्षरित और तिथि सहित लिखित सहमति प्रपत्र की प्रति प्राप्त करूं।
10. यह मेरा अधिकार है कि मैं यह निर्णय लेते समय किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रहूँ कि क्या मैं शोध अध्ययन में रहना चाहता हूँ ।

अगर मेरे मन में कोई प्रश्न या चिंता हो तो मैं शोधकर्ता या शोध सहायक से पूछ सकता हूँ। मैं प्रोटेक्शन आफ रिसर्च सब्जेक्ट (OHRPP) के कार्यालय से भी संपर्क कर सकता हूँ जो शोध अध्ययन के प्रतिभागियों की सुरक्षा करने में सहायता करता है। मैं OPRS से सोमवार से शुक्रवार सवेरे 8.00 से शाम 5.00 बजे तक 310-825-5344 पर फोन से सम्पर्क कर सकता हूँ। अगर मैं कार्यालय फोन करता हूँ और अंग्रेजी या स्पेनिश में बात नहीं करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा कोई होना चाहिए जो मेरे लिए भाषांतर कर सके। मैं OPRS को निम्न पते पर पत्र भी लिख सकता हूँ, OHRPP, 11000 Kinross Avenue, Suite 102, Box 951694, Los Angeles, CA 90095-1694.

